

विषय-लेखाशास्त्र
कक्षा-12
शैक्षिक सत्र-2026-27
पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन

क्रम सं०	माह	पाठ्यक्रम
01	अप्रैल	साझेदारी लेखांकन-आधारभूत अवधारणाएं : साझेदारी की प्रकृति, साझेदारी विलेख, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू साझेदारों के पूँजी खातों का अनुरक्षण, साझेदारी के बीच लाभ का विभाजन, लाभ एवं हानि विनियोग खाता, पूँजी पर ब्याज का परिकलन, पूँजी में परिवर्तन एवं आहरण, आहरणों पर ब्याज, एक साझेदार को लाभ की गारंटी, पूर्व समायोजन ।
02	मई	साझेदारी फर्म का पुनर्गठन : साझेदार की प्रवेश : साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार, साझेदार का प्रवेश, नया लाभ विभाजन अनुपात, त्याग अनुपात, ख्याति ख्याति का अर्थ, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूँजी करण 'विधि, ख्याति का व्यवहार जब नया साझेदार ख्याति की धनराशि नगद लेकर आता है, जब नया साझेदार पूर्णतः अथवा आंशिक ख्याति नहीं लेकर आता है, प्रच्छन्न अथवा छिपी हुई ख्याति, संचित लाभों और हानियों का समायोजन, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण, पूँजी का समायोजन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन
03	जून	ग्रीष्मावकाश
04	जुलाई	साझेदारी फर्म का पुनर्गठन:-साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु- सेवानिवृत्ति/मृत साझेदार को देय राशि का/निर्धारण, नया लाभ विभाजन अनुपात, अधिलाभ अनुपात, ख्याति का व्यवहार-जब ख्याति पुस्तको में विद्यमान नहीं है, प्रच्छन्न ख्याति परिसंपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिये समायोजन, संचित लाभो तथा हानियो का समायोजन साझेदार जब वर्ष के मध्य सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त - साझेदार को देय राशि का निपटारा, साझेदारी की पूँजी का समायोजन, साझेदार की मृत्यु। साझेदारी फर्म का विघटन: साझेदारी का विघटन, फर्म का विघटन, खातों का निपटारा, लेखांकन व्यवहार । प्रथम युनिट टेस्ट (बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित)
05	अगस्त	भाग-2 कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण : अंशपूँजी के लिये लेखांकन: कम्पनी का विशेषताएँ, कंपनी के प्रकार, कंपनी की अंशपूँजी, अंश पूँजी का वर्गीकरण, अंशों की श्रेणियाँ एवं प्रकृति, अधिमानी अंश, समता अंश, अंशों का निर्गमन, लेखांकन व्यवहार - बकाया माँग, अग्रिम माँग खाता, अधि-अभिदान, अंशों का न्यून अभिदान, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन, अंशों का बट्टे पर निर्गमन, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन। अंशों का हरण, - हरण किये गए अंशों का पुनः निर्गमन। द्वितीय युनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित)
06	सितम्बर	ऋणपत्रों का निर्गमन: उपखण्ड-1:ऋणपत्रों का आशय प्रकार, अंश और ऋणपत्र के बीच अन्तर, ऋणपत्रों के प्रकार-(सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अवधि के दृष्टिकोण से) परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से, कूपन दर के दृष्टिकोण से, पंजीकरण के दृष्टिकोण से, ऋणपत्रों का निर्गम-रोकड़ के लिये ऋणपत्रों का निर्गम-बट्टे

		पर ऋणपत्रों का निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमित ऋणपत्र, अधि-अभिदान, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋणपत्रों का निर्गमन, ऋणपत्रों का संपादित प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, ऋणपत्रों का निर्गमित करने की शर्तें, ऋणपत्रों पर ब्याज, लेखांकन व्यवहार, ऋण पत्र निर्गम पर बढ़ा। हानि का अपलेखन।
07	अक्टूबर	कम्पनी को वित्तीय विवरण : वित्तीय विवरणों का अर्थ, वित्तीय विवरणों की प्रकृति, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, वित्तीय विवरणों के प्रकार, तुलन पत्र का प्रारूप एवं विषय सामग्री, प्रकटन की प्रमुख विशेषताएँ, अंशधारक निधियाँ, अंशपूँजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष, अंश वारंट के प्रति प्राप्त धन, चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण, चालू एवं गैर-चालू में विभेद, अंश आवेदन राशि बकाया आवंटन, ऋण अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ अथवा देयताएँ, व्यापार देय, प्रस्तावित लाभांश, प्रावधान, स्थायी परिसंपत्तियाँ, निवेश, रहितिया, व्यापारिक प्राप्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, लाभ हानि विवरण का प्रारूप एवं विषय सामग्री, वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व, वित्तीय विवरणों की सीमाएं। अर्धवार्षिक परीक्षा 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम के आधार पर
08	नवम्बर	लेखांकन अनुपात: लेखांकन अनुपात का अर्थ, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, अनुपात विश्लेषण के लाभ, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं, अनुपातों के प्रकार, द्रवता अनुपात, चालू अनुपात, तरल अनुपात, ऋण शोधन क्षमता अनुपात - ऋण समता अनुपात, ऋण पर नियोजित पूँजी अनुपात, स्वामित्व अनुपात, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात, ब्याज व्याप्ति अनुपात, तथा, क्रियाशीलता (या आवर्त) अनुपात, रहितिया आवर्त अनुपात, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, व्यापारिक देय आवर्त अनुपात, निवल परिसंपत्तियाँ अथवा (विनियोजित पूँजी) आवर्त अनुपात, लाभप्रदता अनुपात, सकल लाभ अनुपात, प्रचालन अनुपात, प्रचालन लाभ अनुपात, निवल लाभ अनुपात, नियोजित पूँजी अथवा निवेश पर प्रत्यय, अंशधारक निधि पर प्रत्याय, प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश पुस्तक मूल्य, लाभांश भुगतान अनुपात, मूल्य अर्जन अनुपात। तृतीय युनिट टेस्ट (बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित)
09	दिसम्बर	रोकड़ प्रवाह विवरण : रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य, रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यराशियाँ, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने हेतु क्रियाकलापों का वर्गीकरण प्रचालन क्रिया क्रियाकलाप से रोकड़, निवेश क्रियाकलापों से रोकड़, वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़, कुछ विशिष्ट (व्यक्तिगत) मदों का व्यवहार। प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना - अप्रत्यक्ष विधि, निवेश एवं वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ माह की गणना, रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण। चतुर्थ युनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न आधारित)
10	जनवरी	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, वार्षिक परीक्षा का आयोजन
11	फरवरी	बोर्ड परीक्षा का आयोजन। कमजोर छात्र/छात्राओं का उपचारात्मक शिक्षण
12	मार्च	मूल्यांकन कार्य एवं मार्च माह में परीक्षा फल का वितरण